

UKPSC Forest Ranger

**Previous Year Paper
2015 Mains Zoology**

Test Prime

**ALL EXAMS,
ONE SUBSCRIPTION**



70,000+
Mock Tests



**Personalised
Report Card**



**Unlimited
Re-Attempt**



600+
Exam Covered



**Previous Year
Papers**



500%
Refund



ATTEMPT FREE MOCK NOW

वन क्षेत्राधिकारी (मुख्य) परीक्षा-2015

VRA-14

No. of Printed Pages : 3

2015

प्राणी विज्ञान

ZOOLOGY

निर्धारित समय : तीन घण्टे]

[पूर्णांक : 200

Time allowed : Three Hours]

[Maximum Marks : 200

- नोट :
- इस प्रश्न-पत्र में दो खण्ड 'अ' तथा 'ब' हैं । प्रत्येक खण्ड में चार प्रश्न हैं । किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक खण्ड से कम से कम दो प्रश्न अवश्य होने चाहिये ।
 - सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।
 - एक प्रश्न के सभी भागों का उत्तर अनिवार्यतः एक साथ दिया जाय ।

- Note :
- This question paper has two sections 'A' and 'B'. Every section has four questions. Attempt any five questions, at least two questions should be from every section.
 - All questions carry equal marks.
 - All the parts of a question must be answered together.

खण्ड - 'अ'

SECTION - 'A'

1. अनुकूलन शीलता के आधार पर उन संरचनात्मक, शरीर क्रियात्मक तथा जननात्मक लक्षणों की विवेचना कीजिए जो हेलमिन्थस को सफल परजीवी बनाते हैं । 40

On the basis of adaptability, describe the structural, physiological and reproductive features that make Helminthes the most successful parasites.

2. पक्षी प्रवासन के विभिन्न कारणों की व्याख्या कीजिए । प्रवास क्रिया के समय ये कैसे मार्ग-निर्देशन करते हैं ? 20 + 20

Explain various causes of bird migration. How do they navigate during migration ?

3. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए : 2 × 20

(अ) परजीवी प्रोटोजोन्स

(ब) चिरभ्रूणता

Write notes on the following :

(a) Parasitic Protozoans

(b) Neoteny

4. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखिए : 2 × 20

(अ) खाद्य जाल

(ब) शहरी प्रदूषण तथा नियंत्रण के उपाय

(स) काई-वर्ग परीक्षण

(द) सीमाकारी कारक

Write notes on any two of the following :

(a) Food web

(b) Urban pollution and control measures

(c) Chi-square test

(d) Limiting factors

खण्ड - 'ब'

SECTION - 'B'

5. केन्द्रीय डोग्मा (सेन्ट्रल डोग्मा) क्या है ? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए । 10 + 30

What is central dogma ? Describe mechanism of protein synthesis in eukaryotic cells.

6. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए : 2 × 20

(अ) एन्जाइम की क्रियाविधि

(ब) बोहर प्रभाव तथा इसका महत्त्व

Write notes on the following :

(a) Mechanism of enzyme action.

(b) Bohr's effect and its importance.

7. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखिए : 2 × 20

- (अ) ऑक्सीकरण फॉस्फोरिलेसन
- (ब) पुनर्योज डी.एन.ए तकनीक
- (स) प्रतिरक्षाग्लोब्यूलिन
- (द) आनुवंशिक विभिन्नता

Write notes on any two of the following :

- (a) Oxidative phosphorylation.
- (b) Recombinant D.N.A. technology.
- (c) Immunoglobulins.
- (d) Genetic variation

8. स्पीसीज की धारणा की विवेचना कीजिए । प्राथम्य क्रिया-विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । समस्त मानव आबादी को एक ही स्पीसीज में उल्लेखित किये जाने का जीव-विज्ञानिक आधार क्या है ? 20 + 15 + 5

अथवा

कुक्कट में भ्रूणवाह कलाओं के निर्माण प्रक्रम तथा कार्यों का वर्णन कीजिए । 40

Discuss the concept of species. Give a brief note on isolating mechanisms. What is the biological basis for assigning all human populations to a single species ?

OR

Discuss the formation process and functions of extra embryonic membranes in chick.

